

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605-अ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2024 — अश्विन 18, शक 1946

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-156/गृह-सी/2024.— इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 अगस्त, 2024 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर से दिनांक 16-08-2024 को प्राप्त प्रस्ताव अनुसार महादेव ऑनलाईन गैम्बलिंग के कुल 77 प्रकरणों एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-157/गृह-सी/2024, दिनांक 23 अगस्त, 2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र, दिनांक 16-08-2024 द्वारा निदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, छ.ग. रायपुर के साथ संलग्न प्रस्ताव में निदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, छ.ग. रायपुर द्वारा थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर, छ.ग. के अपराध क्रमांक 06/2024, धारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7, 7A, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 4, 7, 8, 11 एवं सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (यथासंशोधित सार्वजनिक द्यूत (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 1976) की धारा 4 क के संबंध में सी.बी.आई. से जांच कराने जाने के संबंध में अधिसूचना जारी किया गया था। AIG (Complaint & Corrd.), Policy Division, CBI, New Delhi से प्राप्त पत्र क्रमांक DP0992024/829/24/07/2024-PD/Notification-07, Dt. 24-09-2024 के परिपेक्ष्य में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए एकजाई कर निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी किया जाता है।

संशोधन

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र, दिनांक 16-08-2024 द्वारा निदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, छ.ग. रायपुर के साथ संलग्न प्रस्ताव में थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर, छ.ग. के अपराध क्रमांक 06/2024, धारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7, 7A, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 4, 7, 8, 11 एवं सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (यथासंशोधित सार्वजनिक द्यूत (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 1976) की धारा 4 क एवं पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर से प्राप्त प्रस्ताव, दिनांक 30-09-2024 अनुसार महादेव ऑनलाईन गैम्बलिंग से संबंधित राज्य के विभिन्न थानों में निम्नांकित दर्ज कुल 12 विवेचनाधीन प्रकरणों को सी.बी.आई. से जांच कराये जाने हेतु सहमति प्रदान करता है :—

रेंज रायपुर

स. क.	जिला	थाना	अप0क0/धारा	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
01.	रायपुर	गंज	184/2024 धारा 420, 120बी भादवि, 4(क) जुआ एक्ट व छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 07, आई.टी.एक्ट की धारा 66 सी, तार अधि. 1885 की धारा 25 (सी)	फरार आरोपियों की पता तलाश विवेचना जारी है।
02.	रायपुर	गंज	188/2024 धारा 420, 120बी भादवि, 4(क) जुआ एक्ट व छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 07, आई.टी.एक्ट की धारा 66 सी, तार अधि. 1885 की धारा 25 (सी)	फरार आरोपियों की पता तलाश विवेचना जारी है।
03.	रायपुर	गंज	181/2024 धारा 07 जुआ एक्ट एवं जोड़ने धारा 318(4), 61(2) बीएनएस, धारा 66 सी आईटी एक्ट एवं धारा 25 (सी) भारतीय तार अधिनियम	फरार आरोपियों की पता तलाश विवेचना जारी है।
04.	रायपुर	सिविल लाईन	390/23 7ए, 8 जुआ एक्ट 2022	विवेचना जारी है।
05.	रायपुर	टिकरापारा	05/24 धारा 4(क), 6, 7 छ.ग.जुआ अधिनियम 2022	प्रकरण विवेचना में है।

रेंज बिलासपुर

06.	जांजगीर-चांपा	शिवरीनारायण	303/23 धारा 420, 506बी, 34, 120बी भादवि, 06,07 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम	विवेचना जारी है।
07.	सक्ती	सक्ती	182/24 धारा 7 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम	विवेचना जारी है।
08.	सक्ती	सक्ती	197/24 धारा 7 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम	विवेचना जारी है।
09.	सक्ती	सक्ती	226/24 धारा 7 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम	विवेचना जारी है।

रेंज सरगुजा

10.	सूरजपुर	सूरजपुर	267/23 धारा 11 जुआ एक्ट	विवेचना जारी है।
11.	सूरजपुर	सूरजपुर	268/23 धारा 11 जुआ एक्ट	विवेचना जारी है।
12.	सूरजपुर	प्रतापपुर	90/23 धारा 6, 7 छ.ग.जुआ प्रतिषेध अधि.2022	विवेचना जारी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, उप-सचिव.